



## TEST REQUISITION FORM

### Patient Details

First Name : MR Ashu Tosh Last Name : \_\_\_\_\_

Age : 26 years Gender :  Male  Female

Address : \_\_\_\_\_  
Contact No. : \_\_\_\_\_

E-mail ID \_\_\_\_\_

Referred by \_\_\_\_\_ Contact No. : \_\_\_\_\_

For Maternal Screening - Date of Birth :- DD MM YYYY

Weight : \_\_\_\_\_ kg. Height : \_\_\_\_\_ ft \_\_\_\_\_ inches, LMP \_\_\_\_\_ Last Ultrasound Report

### Billing Information

Client Name : Binay Anand Patyal

Client ID : \_\_\_\_\_

Total Amount : \_\_\_\_\_

Amount Received : \_\_\_\_\_ Receipt No. : \_\_\_\_\_

Amount Balance / Due : \_\_\_\_\_

Payment via :  CASH  CHEQUE  CREDIT

### Specimen Type Received (For MolQ use only)

- |  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serum                   | <input type="checkbox"/> Bone Marrow          | <input type="checkbox"/> CSF    |
| <input type="checkbox"/> Plasma: EDTA/FL/CIT     | <input type="checkbox"/> FN Aspirate          | <input type="checkbox"/> Fluid  |
| <input type="checkbox"/> SST                     | <input type="checkbox"/> Tissue Formalin      | <input type="checkbox"/> BAL    |
| <input type="checkbox"/> W. Blood EDTA           | <input type="checkbox"/> Paraffin Block       | <input type="checkbox"/> Sputum |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Fluoride       | <input type="checkbox"/> Smear                | <input type="checkbox"/> Urine  |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Heparin        | <input type="checkbox"/> Slide (H&E)          | <input type="checkbox"/> Stool  |
| <input type="checkbox"/> W. Blood Sodium Citrate | <input type="checkbox"/> Pus                  | <input type="checkbox"/> Swab   |
|  | <input type="checkbox"/> Blood Culture Bottle | <input type="checkbox"/> Others |

Other Sample Type / Source : ①

### Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature :  Ambient  Refrigerated  Frozen  
Date : \_\_\_\_\_ Time : \_\_\_\_\_  
Patient ID \_\_\_\_\_ No. of vials/container \_\_\_\_\_

1	2
---	---

Signature of Accessioning Officer(s)

### Test Name/Test Code


(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

Small Biopsy

### Instructions to Laboratory/Clinical Information

### Sent Specimen Information

Temperature :  Ambient  Refrigerated  Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode
Biopsy	

Total No. of Vials/Container \_\_\_\_\_

### Specimen Collection Information

Date : 07/01/2018 Time : \_\_\_\_\_

Fasting : Yes  No  Fasting Period : \_\_\_\_\_ Hrs.

Collection by : \_\_\_\_\_


Urine Volume : \_\_\_\_\_ ml Hrs. \_\_\_\_\_

**Patient Consent** : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

**Disclaimer** : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमें से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कमी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

  
 Patient/Client/Doctor's Signature  
 Date : \_\_\_\_\_





# BAJAJ FRACTURE CLINIC & NURSING HOME

NEW RAILWAY ROAD, (GURGAON VILLAGE MORE) GURGAON-122001  
PHONE : 0124 - 2328670, 2306670

**DR. K. K. BAJAJ**  
M.B.B.S., M.S. (Ortho)  
Consultant  
Orthopaedic Surgeon  
Reg. No. HN/515

**DR. RITA BAJAJ**  
M.D. (Radio Diag.)  
Consultant Radiologist  
& Ultrasonologist

DATE 06 JAN 2018

**TIMINGS :**

**Summer & Winter**  
10.30 A.M. To 2.00 P. M.  
6.00 P.M. To 8.00 P.M.

Mrs MR. Ashu Tosh 26YM

Am

Enchondroma @ hand  
Index finger. PP

Curculiji sent for  
histopathology

Kuldeep Bajaj

प्लास्टर लगे मरीजों के लिये

- 1) प्लास्टर लगे अंग को ऊंचा उठाकर रखें।
- 2) हाथ व पैर की ऊंगलियों को हिलाते रहें।
- 3) अगर हाथ व पैर में सूजन आ जाये, असहनीय दर्द हो, तेज बुखार होने पर, ऊंगलियों का सूज जाना, सुन्न हो जाने पर रंग नीला/ सफेद हो जाए, प्लास्टर टूट जाने या ढीला हो जाने पर तुरन्त अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें।

Not Valid for Medicolegal Purposes

Sunday Morning OPD / Sunday Evening No OPD (Emergency Only)

This OPD Slip is Valid for 3 days including the day of First Consultation (Only One visit is complimentary in these three days)

यह OPD Slip 3 दिन तक मान्य होगी पहले दिन समेत (केवल एक विजिट निःशुल्क है इन तीन दिनों में)